

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

शिव प्रसाद राम,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
सभी नगर निगम।
कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी नगर परिषद् एवं सभी नगर पंचायत।
कार्यपालक अभियंता,
सभी जिला शहरी विकास अभिकरण।

पटना, दिनांक-5/2/18


विषय:- डिजीटल सिंगनेचर सर्टिफिकेट एवं ई टोकन हार्डवेयर के लिए संशोधित दर एवं आवेदन से संबंधित दिशा निर्देश के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक सुश्री किरण कुमारी सिन्हा, प्रोजेक्ट लीड, BSEDC Ltd. बेल्ट्रॉन भवन से प्राप्त पत्रांक- 382/18, दिनांक- 23.01.2018 (अनुलग्नक सहित) की छायाप्रति अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,



2.2.18

सरकार के अवर सचिव।

193

BIHAR STATE ELECTRONICS DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
CIN-U31900BR1978SGC001317
(A Govt. of Bihar Undertaking)

Ref. No. 382/18



Date 23/01/18

To,
All Nodal Officers (e-Procurement)
Government of Bihar

Sub: New Rate of Digital Signature Certificate (DSC)

Ref: BSEDC/7250/17 date 17/11/2017.

Sir,

We would like to inform you that, rate of DSC (Digital Signature Certificate) has been changed. The new rate of DSCs has effect immediately.


The new rates of DSCs are as per the details mentioned below:

Sl. No.	Item	Make and Model	BSEDC Unit Rate (Inclusive of all taxes)	Unit Price (In Words)
1	DSC of class II of validity two (2) year with e-Token (Signing & Encryption)	Capricorn and eMudhra DSC & Proxkey token	410.00	Rupees Four Hundred Ten Only
2	DSC of class II of validity two (2) year without e-Token (Signing & Encryption)	Capricorn and eMudhra	293.00	Rupees Two Hundred Ninety Three Only

Note: New discovered rates of DSCs (Digital Signature Certificates) are being implemented with immediate effect.

Hence, all user departments are requested to follow the same.

Yours faithfully


(Kiran Kumari Sinha)
Project Lead

There are two process flows for the Issuance of Digital Signature Certificate (DSC).

1) Existing Process (Presently Used by department)

- Filled-up form of DSC, supporting documents and a forwarding letter of Nodal Officer to BSEDC Ltd. with DD/Cheque as per DSC rate provided by BSEDC (DD in favor of BSEDC Ltd., Payable at Patna)
- DSC Form should be filled-up by blue ink pen only.
- Signed in DSC form and supporting documents as per ID proof (PAN card, Driving License, Passport and Bank account passbook containing the photograph and signed by an individual with attestation by concerned bank official).
- Attestation of Gazetted officer in supporting documents with name and mobile number of the attesting officer.
- It takes maximum 5 days for the issuance of DSC.

2) AADHAR Card based (New Process)

- Filled-up form of DSC, supporting documents and a forwarding letter of Nodal Officer to BSEDC Ltd. with DD/Cheque as per DSC rate provided by BSEDC (DD in favor of BSEDC Ltd., Payable at Patna).
- Physical presence of concerned officer is mandatory with their AADHAR CARD in BSEDC Office.
- After receipt of all credentials of concerned officer, it will take 1(one) day in issuance of DSC.